



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़ 1946 (श10)

(सं0 पटना 562) पटना, बृहस्पतिवार, 27 जून 2024

सं0 प्र2/बोर्ड पुर्न0 सं-31/2008 (खण्ड-1)-01  
ऊर्जा विभाग

संकल्प

20 जून 2024

विषय :- बिहार विद्युत सुधार (मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन ट्रांसफर) स्कीम, 2006 के तहत मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन (MTPS) से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) को अंतरित किये गये निर्दिष्ट कार्मिकों (Specified Personnel) के सेवोत्तर लाभों के मामलों को भी 'बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाई मास्टर ट्रस्ट' द्वारा आच्छादित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

विभागीय अधिसूचना संख्या-35-सह-पठित ज्ञापांक-3657 दिनांक 08.09.2006 द्वारा बिहार विद्युत सुधार (मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन ट्रांसफर) स्कीम, 2006 के तहत मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन(MTPS) को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) को हस्तांतरित किया गया।

2. उक्त अधिसूचना की कंडिका-5(g) के अनुसार सेवांत लाभ आदि के निर्धारण एवं भुगतान हेतु कार्मिकों के (NTPC) में स्थानान्तरण से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विद्युत बोर्ड, राज्य सरकार एवं निर्दिष्ट कार्मिकों के प्रतिनिधि का एक ट्रस्ट स्थापित किया जाना था। परन्तु, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन की कार्यवाई प्रक्रियाधीन रहने के कारण यथासमय ट्रस्ट का गठन नहीं किया जा सका। इस बीच विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-17-सह-पठित ज्ञापांक-4893 दिनांक-30.10.2012 द्वारा बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतरण स्कीम, 2012 अधिसूचित की गयी।

3. उक्त अधिसूचना संख्या-17 दिनांक 30.10.2012 की कंडिका-06 "कर्मियों का अंतरण" की उप कंडिका 6.14 एवं 6.15 के अधीन बिहार स्टेट पावर (हो०) क० लि० (पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड) एवं इसके अनुषंगी कंपनियों के सभी कार्मिकों तथा पेंशनभोगियों के लिए गठित बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाई मास्टर ट्रस्ट द्वारा सभी सेवान्त लाभों का निपटारा किया जा रहा है।

4. उल्लेखनीय है कि बिहार विद्युत सुधार स्कीम, 2006 से एन०टी०पी०सी० (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) को सौंपे गये कर्मियों में सेवानिवृत्त 9 (नौ) निर्दिष्ट कार्मिकों (Specified Personnel) में से 08 (आठ) कर्मी सम्प्रति सेवानिवृत्त हो गये हैं। इन सेवानिवृत्त कर्मियों को पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के सेवा अवधि का अनुमान्यता के आधार पर सेवांत लाभों के निपटारा एवं भुगतान बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० (पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड) द्वारा किया जा चुका है। एन०टी०पी०सी० के अंतर्गत कार्यावधि के आधार पर उन कर्मियों को उनके सेवांत लाभों के भुगतान हेतु यथा अनुदेशित 'ट्रस्ट' की स्थापना नहीं होने के कारण एन०टी०पी०सी० द्वारा अपना अंशदान नहीं दिया जा सका।

5. अपने सेवांत लाभों के भुगतान को लेकर इन सेवानिवृत्त कर्मियों में से कुछ कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिका एवं पुनः एल०पी०ए० दायर किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय उक्त अधिसूचना संख्या-35 दिनांक-08.09.2006 की कंडिका-05 की उप कंडिका (e), (f) & (g) में निर्दिष्ट तथ्यों के आलोक में सेवांत लाभ के निर्धारण हेतु ट्रस्ट की स्थापना के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गई है।

6. विदित हो कि बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० (पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड) एवं इसके अनुषंगी कंपनियों के सभी कर्मियों तथा पेंशनभोगियों के लिए गठित बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाय मास्टर ट्रस्ट द्वारा सभी सेवान्त लाभों का निपटारा किया जा रहा है, वैसी स्थिति में अलग से सम्प्रति, किसी ट्रस्ट के गठन की प्रासंगिकता नहीं रह गयी है इसलिए मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन (MTPS) से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) को अंतरित किये गये उन 09 निर्दिष्ट कार्मिकों (Specified Personnel) के सेवोत्तर लाभों के मामलों को भी 'बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाय मास्टर ट्रस्ट' द्वारा आच्छादित किया जाना आवश्यक है।

7. अतएव बिहार विद्युत सुधार (मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन ट्रांसफर) स्कीम, 2006 के तहत मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन (MTPS) से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) को अंतरित किये गये निर्दिष्ट कार्मिकों (Specified Personnel) के सेवोत्तर लाभों के मामलों को भी 'बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाय मास्टर ट्रस्ट' द्वारा आच्छादित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संजीव हंस,  
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 562-571+200-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>